

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 55]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 23 जनवरी 2016—माघ 3, शक 1937

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2016

मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक/बी-11/03/2015/14-2, दिनांक 17.11.2015 द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत मौसम रबी 2015-16 हेतु पटवारी हल्का स्तर की अधिसूचना क्रमांक 456, दिनांक 17.11.2015 जारी की गई थी । जारी अधिसूचना में संशोधन करते हुए जिला उमरिया, राजगढ़, नीमच, सीहोर, भोपाल, खरगोन, खण्डवा, नरसिंहपुर, जबलपुर एवं देवास की संलग्न संशोधित सूची अनुसार उनके समक्ष दर्शाई गई फसलों के लिये मूल अधिसूचना क्रमांक 456 दिनांक 17.11.2015 के अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है । मौसम रबी वर्ष 2015-16 के लिये जिला उमरिया, राजगढ़, नीमच, सीहोर, भोपाल, खरगोन, खण्डवा, नरसिंहपुर, जबलपुर एवं देवास के पटवारी हल्का स्तर की संशोधित अधिसूचना जारी की जाती है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

**राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना रबी 2015-16 हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्कों की  
पूरक संशोधित सूची**

मौसम	रबी	वर्ष	2015-16	100 हैक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची									
जिला	तहसील	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	राई-सरसों					
उमरिया	चंदिया	चंदिया	17	धतूरा	-	गेहूं असिंचित	-	-					
			29	अखंडार	गेहूं सिंचित	-	-						
			40	पठारीखुर्द	गेहूं सिंचित	-	-						
	पाली	नौरोजाबाद	नौरोजाबाद	17	बेली	गेहूं सिंचित	-	-	-				
				02	उचेहरा	-	गेहूं असिंचित	-	-				
				03	बड़ागांव	-	गेहूं असिंचित	-	-				
				11	पिनौरा	-	गेहूं असिंचित	-	-				
				12	मसूरपानी	-	गेहूं असिंचित	-	-				
				13	देवरी मंजरा	-	गेहूं असिंचित	-	-				
				15	डगडौवा	-	गेहूं असिंचित	-	-				
				16	कोहका	-	गेहूं असिंचित	-	-				
				17	गहिराटोला	-	गेहूं असिंचित	-	-				
				19	कोलोनी	-	गेहूं असिंचित	-	-				
				20	तुठाकुदरी	-	गेहूं असिंचित	-	-				
				21	सिंहपुर	-	गेहूं असिंचित	-	-				
				26	कल्दा	-	गेहूं असिंचित	-	-				
				राजगढ़	राजगढ़	राजगढ़	46	फूलखेडी	गेहूं सिंचित	-	-	-	
							54	रानीपुरा	गेहूं सिंचित	-	-		
					खिलचीपुर	भाजपुर	भाजपुर	61	टपरिया हेडी	गेहूं सिंचित	-	-	-
								13	हरिपुरा	गेहूं सिंचित	-	-	
15	खाजली	गेहूं सिंचित	-					-					
18	रिछडिया	गेहूं सिंचित	-					-					
19	दण्ड	गेहूं सिंचित	-					-					
20	भवानीपुरा	गेहूं सिंचित	-					-					
27	बादरी	गेहूं सिंचित	-					-					
20	तालखेडा	गेहूं सिंचित	-					-	राई-सरसों				
नीमच	जीरन	जीरन	19	भवरासा	गेहूं सिंचित	-	-	-					
सीहोर	रेहटी	रेहटी	21	सावलखेडा	गेहूं सिंचित	-	-	-					
			71	कोलूखेडी	गेहूं सिंचित	-	-	-					
			भोपाल	हुजूर	फन्दा-4	12	बडवेल	गेहूं सिंचित	-	-	-		
						28	समराज	गेहूं सिंचित	-	-	-		
						30	मोंगावां	गेहूं सिंचित	-	-	-		
						31	मोहद	गेहूं सिंचित	-	-	-		
						33	भकलाय	गेहूं सिंचित	-	-	-		
						34	बगदरा	गेहूं सिंचित	-	-	-		
						35	भूदरी	गेहूं सिंचित	-	-	-		

मौसम	रबी	वर्ष	2015-16	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची				
जिला	तहसील	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	राई-सरसों
			37	मंदौरी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			39	झापडी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			40	देवपिपल्या	गेहूं सिंचित	-	-	-
		करही	51	करोदिया खुर्द	गेहूं सिंचित	-	-	-
			52	पेमपुरा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			53	बलसगांव	गेहूं सिंचित	-	-	-
			54	घटयाबेडी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			59	वणी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			63	पिपल्याखुर्द	गेहूं सिंचित	-	-	-
			65	पिटामली	गेहूं सिंचित	-	-	-
			66	सिटोका	गेहूं सिंचित	-	-	-
			68	पालसूद	गेहूं सिंचित	-	-	-
			69	माचलपुर	गेहूं सिंचित	-	-	-
	बड़वाह	बड़वाह(आर. आई-1)	4	टेमला	गेहूं सिंचित	-	-	-
			7	सुरपाला	गेहूं सिंचित	-	-	-
			10	बिलाली	गेहूं सिंचित	-	-	-
			12	जेठवाय	गेहूं सिंचित	-	-	-
			13	जूजाखेडी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			14	माचलपुरखुर्द	गेहूं सिंचित	-	-	-
			15	बेलम बुजुर्ग	गेहूं सिंचित	-	-	-
			18	उमरिया	गेहूं सिंचित	-	-	-
			19	रमाणा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			27	आक्या	गेहूं सिंचित	-	-	-
			43	कदवाल्या	गेहूं सिंचित	-	-	-
			44	बागफल	गेहूं सिंचित	-	-	-
			46	सिरलाय	गेहूं सिंचित	-	-	-
			52	बावडीखेडा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			55	हमीरपुरा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			56	रतनपुर	गेहूं सिंचित	-	-	-
			57	मुराल्ला	गेहूं सिंचित	-	-	-
			58	सेमरला	गेहूं सिंचित	-	-	-
	सनावद	सनावद(आर. आई-2)	64	भोगवानिपानी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			65	भोगवासिपानी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			70	लौदी	गेहूं सिंचित	-	चना	-
			73	डालची	गेहूं सिंचित	-	-	-
			74	सेल्दा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			77	डाल्याखेडी	गेहूं सिंचित	-	चना	-
			78	दामड	गेहूं सिंचित	-	-	-
			81	बागदाबुजुर्ग	गेहूं सिंचित	-	-	-

मौसम	रबी	वर्ष	2015-16	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची				
जिला	तहसील	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	राई-सरसों
			82	बैडिया	गेहूं सिंचित	—	—	—
			83	डूडगांव	गेहूं सिंचित	—	चना	—
			84	चितावद	गेहूं सिंचित	—	—	—
			85	तमोलिया	गेहूं सिंचित	—	—	—
			87	भूलगांव	गेहूं सिंचित	—	चना	—
			88	गलगांव	गेहूं सिंचित	—	—	—
			89	बडूद	गेहूं सिंचित	—	चना	—
			90	गवल	गेहूं सिंचित	—	—	—
			91	साला	गेहूं सिंचित	—	—	—
			94	बाल्या	गेहूं सिंचित	—	—	—
			95	बिजलवाडा	गेहूं सिंचित	—	—	—
			96	दसौडा	गेहूं सिंचित	—	—	—
			97	हिरापुर	गेहूं सिंचित	—	—	—
			101	रूपखेडा	गेहूं सिंचित	—	—	—
			105	खंगवाडा	गेहूं सिंचित	—	—	—
			109	भानबरड	गेहूं सिंचित	—	—	—
			110	ढसगांव	गेहूं सिंचित	—	चना	—
			111	छापरा	गेहूं सिंचित	—	चना	—
	कसरावद	कसरावद	3	खलबुजुर्ग	गेहूं सिंचित	—	—	—
			4	बलगांव	गेहूं सिंचित	—	—	—
			5	बालसमुद	गेहूं सिंचित	—	—	—
			6	डोंगरगांव	गेहूं सिंचित	—	—	—
			7	सायता	गेहूं सिंचित	—	—	—
			10	मोंगावा	गेहूं सिंचित	—	—	—
			11	दौगावा	गेहूं सिंचित	—	—	—
			12	कसरावदखुर्द	गेहूं सिंचित	—	—	—
			13	कसरावदबुजुर्ग	गेहूं सिंचित	—	—	—
			14	भीलगांव	गेहूं सिंचित	—	—	—
			15	काटकूर	गेहूं सिंचित	—	—	—
			16	समीलपुरा	गेहूं सिंचित	—	—	—
			17	गवला	गेहूं सिंचित	—	—	—
			18	बामंदा	गेहूं सिंचित	—	—	—
			19	बामंदी	गेहूं सिंचित	—	—	—
			20	जलखां	गेहूं सिंचित	—	—	—
			21	रूपखेडा	गेहूं सिंचित	—	—	—
			22	साटकूर	गेहूं सिंचित	—	—	—
			23	पथौरा	गेहूं सिंचित	—	—	—
			24	रगवां	गेहूं सिंचित	—	—	—
			43	बलकवाडा	गेहूं सिंचित	—	—	—
			46	गोपलपुरा	गेहूं सिंचित	—	—	—
			47	ओझरा	गेहूं सिंचित	—	—	—

मौसम	रबी	वर्ष	2015-16	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची				
जिला	तहसील	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	राई-सरसों
			52	लौहारी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			53	बरसलाय	गेहूं सिंचित	-	-	-
			54	बामखल	गेहूं सिंचित	-	-	-
			55	अवरकच्छ	गेहूं सिंचित	-	-	-
			56	सिपटान	गेहूं सिंचित	-	-	-
			57	कोडापुरा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			58	सोनखेडी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			60	सैलानी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			61	उटावद	गेहूं सिंचित	-	-	-
			62	बोरावां	गेहूं सिंचित	-	-	-
		मुलठान	8	बडगांव	गेहूं सिंचित	-	-	-
			29	जरोली	गेहूं सिंचित	-	-	-
			30	मुकुन्दपुरा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			33	नायदड	गेहूं सिंचित	-	-	-
			34	डोलानी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			35	भैसावद	गेहूं सिंचित	-	-	-
			36	मलतार	गेहूं सिंचित	-	-	-
			63	सरवरदेवला	गेहूं सिंचित	-	-	-
			64	काकरियांव	गेहूं सिंचित	-	-	-
			66	लेपा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			67	अमलाथा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			68	भग्यापुर	गेहूं सिंचित	-	-	-
			71	बाडी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			73	खामखेडा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			74	दुर्गापुर	गेहूं सिंचित	-	-	-
			75	डेडगांव	गेहूं सिंचित	-	-	-
			77	भट्याण खुर्द	गेहूं सिंचित	-	-	-
			79	भोपाडा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			81	हिरापुर	गेहूं सिंचित	-	-	-
			82	सुर्वा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			83	किरगांव	गेहूं सिंचित	-	-	-
	खरगोन	खरगोन	1	बगवां	गेहूं सिंचित	-	-	-
			2	दसंगा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			4	लोनारा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			5	डोंगरगांव	गेहूं सिंचित	-	-	-
			6	साईखेडा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			8	मोडापुरा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			11	नन्दगांव	गेहूं सिंचित	-	-	-
			12	इच्छापुर	गेहूं सिंचित	-	-	-
			13	पिपरी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			16	पधान्या	गेहूं सिंचित	-	-	-

मौसम	रबी	वर्ष	2015-16	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची				
जिला	तहसील	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	राई-सरसों
			17	इदारतपुर	गेहूं सिंचित	-	-	-
			19	आसनगांव	गेहूं सिंचित	-	-	-
			21	मेनगांव	गेहूं सिंचित	-	-	-
			22	पिपराटा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			23	भाडली	गेहूं सिंचित	-	-	-
			24	बैडिया	गेहूं सिंचित	-	-	-
			25	टेमला	गेहूं सिंचित	-	-	-
			26	रणगांव	गेहूं सिंचित	-	-	-
			28	नन्दगांव रोड	गेहूं सिंचित	-	-	-
			32	रायबिडपुरा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			33	डालका	गेहूं सिंचित	-	-	-
			35	गावसन	गेहूं सिंचित	-	-	-
			36	बरूड	गेहूं सिंचित	-	-	-
			37	रोमचिचली	गेहूं सिंचित	-	-	-
			38	बैजापुरा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			39	डोंगरचिचली	गेहूं सिंचित	-	-	-
			44	बलवाडी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			45	सोनीपुरा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			47	सांगवी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			48	भसनर	गेहूं सिंचित	-	-	-
			49	जामली	गेहूं सिंचित	-	-	-
	गोगावा	गोगावा	1	बिलखेड बुजुर्ग	गेहूं सिंचित	-	-	-
			2	सुरपाला	गेहूं सिंचित	-	-	-
			4	गोगावा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			6	मुहम्मदपुर	गेहूं सिंचित	-	-	-
			7	बैजापुर	गेहूं सिंचित	-	-	-
			8	जामन्या	गेहूं सिंचित	-	-	-
			9	कुण्डिया	गेहूं सिंचित	-	-	-
			10	ठीबगांव बु.	गेहूं सिंचित	-	-	-
			11	खेडीखुर्द	गेहूं सिंचित	-	-	-
			12	मांगरूल खु.	गेहूं सिंचित	-	-	-
			13	बीड	गेहूं सिंचित	-	-	-
			15	मगरिया	गेहूं सिंचित	-	-	-
			18	बडगांव	गेहूं सिंचित	-	-	-
			19	देवलगांव	गेहूं सिंचित	-	-	-
			20	लाखी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			21	बेहरामपुर	गेहूं सिंचित	-	-	-
			22	बिलाली	गेहूं सिंचित	-	-	-
			23	घुघरियाखेडी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			24	नागझिरी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			25	राजपुरा	गेहूं सिंचित	-	-	-

मौसम	रबी	वर्ष	2015-16	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची				
जिला	तहसील	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	राई-सरसों
			26	पिंपरखेडा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			27	कुकडोल	गेहूं सिंचित	-	-	-
			28	कुम्हारखेडा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			30	कोठा बु.	गेहूं सिंचित	-	-	-
			31	कोठा खु.	गेहूं सिंचित	-	-	-
			32	उमरखली	गेहूं सिंचित	-	-	-
			33	पेनपुर	गेहूं सिंचित	-	-	-
			34	जगन्नाथपुरा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			36	घट्टी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			37	बलगांव	गेहूं सिंचित	-	-	-
			38	रूपखेडा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			39	सोलना	गेहूं सिंचित	-	-	-
			40	गाडाघाट	गेहूं सिंचित	-	-	-
			44	टेमरना	गेहूं सिंचित	-	-	-
			45	पिपलई	गेहूं सिंचित	-	-	-
	भीकनगांव	भीकनगांव	1	ककडगांव	गेहूं सिंचित	-	-	-
			3	चौण्डी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			4	पाडल्यागवली	गेहूं सिंचित	-	-	-
			5	अहिरखेडा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			6	निमोनी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			8	रोडिया	गेहूं सिंचित	-	-	-
			12	बोरगांव	गेहूं सिंचित	-	-	-
			15	नूरियाखेडी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			17	अंजनगांव	गेहूं सिंचित	-	-	-
			18	पोखरखुर्द	गेहूं सिंचित	-	-	-
			21	अंदड	गेहूं सिंचित	-	-	-
			22	बडिया	गेहूं सिंचित	-	-	-
			25	रेहगांव	गेहूं सिंचित	-	-	-
			28	पाडल्याबाबाजी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			29	सांगवी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			30	अमनखेडी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			31	पत्थरवाडा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			42	टेमला	गेहूं सिंचित	-	-	-
			46	कंदवाजागीर	गेहूं सिंचित	-	-	-
			48	बलखडिया	गेहूं सिंचित	-	-	-
			49	सगर	गेहूं सिंचित	-	-	-
			50	पोई	गेहूं सिंचित	-	-	-
			53	बमनाला	गेहूं सिंचित	-	-	-
			54	वल्का	गेहूं सिंचित	-	-	-
			56	सुर्वा कोयडा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			57	सतवाडा	गेहूं सिंचित	-	-	-

मौसम	रबी	वर्ष	2015-16	100 हैक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची				
जिला	तहसील	रा.नि.म. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	राई-सरसों
			58	पोखराबाद	गेहूं सिंचित	-	-	-
			60	जामन्या बु.	गेहूं सिंचित	-	-	-
			63	पिपल्या बु.	गेहूं सिंचित	-	-	-
			64	बडिया	गेहूं सिंचित	-	-	-
			65	पलासी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			66	सुन्दैल	गेहूं सिंचित	-	-	-
	सैगांव	सैगांव	6	सतावड	गेहूं सिंचित	-	-	-
			9	जमोठी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			11	तलकपुरा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			18	चिचगढ	गेहूं सिंचित	-	-	-
			21	केली	गेहूं सिंचित	-	-	-
			25	जोजलवाडी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			32	महूगांव	गेहूं सिंचित	-	-	-
			33	सिनखेडा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			34	डालकी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			35	केशवपुरा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			36	श्रीखण्डी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			37	सिलोटिया	गेहूं सिंचित	-	-	-
	भगवानपुर	भगवानपुरा	4	मदनीखुर्द	गेहूं सिंचित	-	-	-
			10	सुखपुरी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			11	अम्बाखेडा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			12	देवाडा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			13	थरडपुरा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			15	करही	गेहूं सिंचित	-	-	-
			16	भग्यापुर	गेहूं सिंचित	-	-	-
			17	बागदरी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			19	जामन्यापानी	गेहूं सिंचित	-	-	-



मौसम	रबी	वर्ष	2015-16	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची				
जिला	तहसील	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	राई-सरसों
			27	ढाबला	गेहूं सिंचित	-	-	-
			35	सरवरदेवला	गेहूं सिंचित	-	-	-
			39	मोहनपुरा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			44	देजला	गेहूं सिंचित	-	-	-
	झिरन्या	झिरन्या	6	पाखल्या	गेहूं सिंचित	-	-	-
			7	तिनस्या	गेहूं सिंचित	-	-	-
			8	मोरदड	गेहूं सिंचित	-	-	-
			9	जामली	गेहूं सिंचित	-	-	-
			10	मोरवा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			14	चेनपुर	गेहूं सिंचित	-	-	-
			18	ठोकनबैडा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			21	पिपरखेडनाका	गेहूं सिंचित	-	-	-
			27	छेंदिया	गेहूं सिंचित	-	-	-
			32	टिगरिया	गेहूं सिंचित	-	-	-
			34	सोनखेडी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			35	आ.नानकोडी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			37	गोरखपुर	गेहूं सिंचित	-	-	-
			38	ढसलगांव	गेहूं सिंचित	-	-	-
			39	साईखेडा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			40	बायखेडा	गेहूं सिंचित	-	-	-
खण्डवा	खण्डवा	खण्डवा 01	76	आमोदा	गेहूं सिंचित	-	-	-
		पिपलोद	147	बोरखेडाखुर्ब	गेहूं सिंचित	-	-	-
		पिपलोद	148	भिलाईखेडा	गेहूं सिंचित	-	-	-

मौसम	रबी	वर्ष	2015-2016	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची				
				पटवारी	पटवारी मुख्यालय का नाम	गेहूँ सिंचित	गेहूँ असिंचित	चना
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	हल्का न.					
नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर 1						
			00001	ढाना				चना
			00002	बंदरोहा	गेहूँ सिंचित			चना
			00003	हीरापुर				चना
			00004	अमौदा				चना
			00005	डोगरगाँव	गेहूँ सिंचित			चना
			00006	मुर्गाखेड़ा	गेहूँ सिंचित			चना
			00008	बधी	गेहूँ सिंचित			चना
			00009	गरारू	गेहूँ सिंचित			चना
			00010	मुराछ	गेहूँ सिंचित			चना
			00012	घाट पिपरिया	गेहूँ सिंचित			चना
			00013	गुड़वारा	गेहूँ सिंचित			चना
			00015	चन्द्रपुरा	गेहूँ सिंचित			चना
			00016	बम्हौरी	गेहूँ सिंचित			चना
			00017	तिंदनी	गेहूँ सिंचित			चना
			00018	नवागाँव	गेहूँ सिंचित			चना
			00019	धवना	गेहूँ सिंचित			चना
			00020	इमलिया	गेहूँ सिंचित			चना
			00021	नयाखेड़ा	गेहूँ सिंचित			चना
			00022	सगौनीखुर्द	गेहूँ सिंचित			चना
			00023	धुबघट	गेहूँ सिंचित			चना
			00024	रानीपिंडरई	गेहूँ सिंचित			चना
			00025	सुपला	गेहूँ सिंचित			चना
			00026	खापा	गेहूँ सिंचित			चना
			00027	मचवारा	गेहूँ सिंचित			चना
			00028	पिपरिया मल्लाह	गेहूँ सिंचित			चना
			00029	बड़गुवाँ	गेहूँ सिंचित			चना
			00030	बेलखेड़ा	गेहूँ सिंचित			चना
			00031	झिरीखुर्द	गेहूँ सिंचित			चना
			00032	डोगरगाँव	गेहूँ सिंचित			चना
			00033	घा पिंडरई	गेहूँ सिंचित			चना
			00034	पॉसी	गेहूँ सिंचित			चना
			00035	भववारा	गेहूँ सिंचित			चना
			00036	डोकरघाट	गेहूँ सिंचित			चना
			00037	सूरजगाँव	गेहूँ सिंचित			चना
नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर २						
			00038	खमरिया	गेहूँ सिंचित			चना

			00039	जरजौला	गेहूँ सिंचित		चना
			00040	नरसिंहपुर	गेहूँ सिंचित		चना
			00042	देवरीकला	गेहूँ सिंचित		चना
			00045	खमतरा			चना
			00047	रानीपिंडरई	गेहूँ सिंचित		चना
			00048	धुबघट			चना
			00049	सिंहपुर	गेहूँ सिंचित		चना
			00051	सिमरिया	गेहूँ सिंचित		चना
नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	बचई					
			00052	भैसा	गेहूँ सिंचित		चना
			00053	पाला	गेहूँ सिंचित		चना
			00054	कल्याणपुर	गेहूँ सिंचित		चना
			00055	बारूेवा	गेहूँ सिंचित		
			00056	झारखुरपा	गेहूँ सिंचित		चना
			00057	खुरपा	गेहूँ सिंचित		चना
			00058	डांगीढाना	गेहूँ सिंचित		चना
			00059	मुड़िया	गेहूँ सिंचित		चना
			00060	बहोरीपार	गेहूँ सिंचित		चना
			00061	सहजपुर	गेहूँ सिंचित		चना
			00062	चौराखेड़ा	गेहूँ सिंचित		चना
			00063	चीलाचौन कला	गेहूँ सिंचित		चना
			00064	चीलाचौन खुर्द	गेहूँ सिंचित		चना
			00065	बड़गुवां	गेहूँ सिंचित		चना
			00068	बबरिया	गेहूँ सिंचित		चना
नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	मुगवानी					
			00069	बकोरी	गेहूँ सिंचित		चना
			00070	देवनगर	गेहूँ सिंचित		चना
			00071	मुगवानी	गेहूँ सिंचित		चना
			00072	पस्ताना			चना
			00073	गोहगावरी	गेहूँ सिंचित		चना
			00074	पीपरपानी	गेहूँ सिंचित		चना
			00075	ऊसरी	गेहूँ सिंचित		
			00076	रातोमाटी	गेहूँ सिंचित		चना
			00077	महगाँव	गेहूँ सिंचित		
			00078	कोदरासकला	गेहूँ सिंचित		
			00079	खमरिया	गेहूँ सिंचित		चना
			00080	गोरखपुर	गेहूँ सिंचित		
			00081	बालौद	गेहूँ सिंचित		
			00082	पिपरिया	गेहूँ सिंचित		चना
			00083	बिचुआ	गेहूँ सिंचित		चना
			00084	पांजरा	गेहूँ सिंचित		चना

			00085	डुडवारा	गेहूँ सिंचित		चना
			00086	पाठा	गेहूँ सिंचित		
			00087	गड़रिया	गेहूँ सिंचित		चना
			00088	लिधारी	गेहूँ सिंचित		चना
नरसिंहपुर	करेली	बरमान					
			00001	अमथनू	गेहूँ सिंचित		चना
			00002	बम्हनी	गेहूँ सिंचित		चना
			00003	सुआतला	गेहूँ सिंचित		चना
			00004	पलोहा छोटा	गेहूँ सिंचित		चना
			00005	खमरिया			चना
			00006	रीछई	गेहूँ सिंचित		चना
			00007	कुम्हरोड़ा			चना
			00008	बीतली	गेहूँ सिंचित		चना
			00009	बिचुआ			चना
			00010	रमपुरा			चना
			00011	सरसला	गेहूँ सिंचित		चना
			00012	केरपानी	गेहूँ सिंचित		चना
			00013	गुरसी			चना
			00014	हिरनपुर			चना
			00015	मिढ़ली			चना
			00018	बीकोर			चना
नरसिंहपुर	करेली	करेली					
			00019	गवारी	गेहूँ सिंचित		चना
			00020	घूरपुर	गेहूँ सिंचित		चना
			00021	चिनकी	गेहूँ सिंचित		चना
			00022	समनापुर	गेहूँ सिंचित		चना
			00023	उमरिया	गेहूँ सिंचित		चना
			00024	देवाकछार	गेहूँ सिंचित		चना
			00025	कुम्हड़ी	गेहूँ सिंचित		चना
			00026	रामपिपरिया (लिंगा)	गेहूँ सिंचित		चना
			00027	रातीकरारकलां	गेहूँ सिंचित		चना
			00028	खैरी	गेहूँ सिंचित		चना
			00029	पिपरिया	गेहूँ सिंचित		चना
			00030	रांकई	गेहूँ सिंचित		चना
			00031	पिपरिया (रांकई)	गेहूँ सिंचित		चना
			00032	कोदसा	गेहूँ सिंचित		चना
			00033	गोगांवरी	गेहूँ सिंचित		
			00035	इमलिया	गेहूँ सिंचित		
			00036	जनोर	गेहूँ सिंचित		चना
			00037	बसेड़ी	गेहूँ सिंचित		चना

			00038	खैरीनाका	गेहूँ सिंचित	चना
			00039	कठौतिया	गेहूँ सिंचित	चना
			00040	करेली	गेहूँ सिंचित	चना
			00041	भुगवारा	गेहूँ सिंचित	चना
नरसिंहपुर	करेली	आमगाँव				
			00042	कंधरापुर	गेहूँ सिंचित	चना
			00043	कपूरी	गेहूँ सिंचित	चना
			00044	करताज	गेहूँ सिंचित	चना
			00045	कोसमखेड़ा	गेहूँ सिंचित	चना
			00046	निवारी	गेहूँ सिंचित	चना
			00047	अम्हेटा	गेहूँ सिंचित	चना
			00048	सासबहू	गेहूँ सिंचित	चना
			00049	जोवा	गेहूँ सिंचित	चना
			00050	मोहद	गेहूँ सिंचित	चना
			00051	बघुवार	गेहूँ सिंचित	चना
			00052	तिसरा	गेहूँ सिंचित	
			00053	बम्हौरी	गेहूँ सिंचित	चना
			00054	आमगाँवबड़ा	गेहूँ सिंचित	चना
			00055	सिमरियाकलां	गेहूँ सिंचित	चना
			00056	पिपरिया(बरोदि)	गेहूँ सिंचित	चना
			00057	नयाखेड़ा	गेहूँ सिंचित	चना
			00058	बासादेही	गेहूँ सिंचित	चना
			00059	गोबरगाँव	गेहूँ सिंचित	चना
			00060	खिरिया	गेहूँ सिंचित	चना
			00061	बारहछोट	गेहूँ सिंचित	चना
			00062	ग्वारीकलां	गेहूँ सिंचित	चना
			00063	रमखिरिया	गेहूँ सिंचित	चना
			00064	हिनोतिया	गेहूँ सिंचित	चना
			00065	माचामउ	गेहूँ सिंचित	चना
नरसिंहपुर	गोटेगाँव	करकवेल				
			00001	सांकल	गेहूँ सिंचित	चना
			00002	वुधगाँव	गेहूँ सिंचित	चना
			00003	बढैयाखेड़ा	गेहूँ सिंचित	चना
			00004	देवरीकला	गेहूँ सिंचित	चना
			00005	मोहास	गेहूँ सिंचित	चना
			00006	अकोला	गेहूँ सिंचित	चना
			00007	कंधरापुर	गेहूँ सिंचित	चना
			00008	ठेमी	गेहूँ सिंचित	चना
			00009	कापखेड़ा	गेहूँ सिंचित	चना
			00010	वौछार	गेहूँ सिंचित	चना
			00011	वासनपानी	गेहूँ सिंचित	चना

			00012	मेख	गेहूँ	सिंचित		चना	
			00013	करकवेल	गेहूँ	सिंचित		चना	
			00014	मुश. पिपरिया	गेहूँ	सिंचित		चना	
			00015	वम्हनी	गेहूँ	सिंचित		चना	
			00016	आंखीवाडा	गेहूँ	सिंचित		चना	
			00017	सिमरीवडी	गेहूँ	सिंचित		चना	
			00018	टिकरी	गेहूँ	सिंचित		चना	
			00019	मानेगांव	गेहूँ	सिंचित		चना	
			00020	इमलिया	गेहूँ	सिंचित		चना	
			00021	कमती	गेहूँ	सिंचित		चना	
			00022	पोनिया (डुगरिया)	गेहूँ	सिंचित		चना	
			00023	गोहचर	गेहूँ	सिंचित		चना	
नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव.							
			00024	रेहली	गेहूँ	सिंचित		चना	
			00025	भैसा	गेहूँ	सिंचित		चना	
			00026	खोबी	गेहूँ	सिंचित		चना	
			00027	जमुनिया	गेहूँ	सिंचित		चना	
			00028	मुआर	गेहूँ	सिंचित		चना	
			00029	वेलखेडी	गेहूँ	सिंचित		चना	
			00030	चंदली	गेहूँ	सिंचित		चना	
			00031	करेलीकला	गेहूँ	सिंचित		चना	
			00032	वेलखेडी	गेहूँ	सिंचित		चना	
			00033	झासीघाट	गेहूँ	सिंचित		चना	
			00034	सिलारी	गेहूँ	सिंचित		चना	
			00035	पिपरिया	गेहूँ	सिंचित		चना	
			00036	सालीवाडा	गेहूँ	सिंचित		चना	
			00037	कूसीवाडा	गेहूँ	सिंचित		चना	
			00038	खमरिया	गेहूँ	सिंचित		चना	
			00039	नौनी	गेहूँ	सिंचित		चना	
			00040	गरा	गेहूँ	सिंचित		चना	
			00041	मुरदई	गेहूँ	सिंचित		चना	
			00042	कजई	गेहूँ	सिंचित		चना	
			00043	सिमरिया	गेहूँ	सिंचित		चना	
			00044	बगलई उजर	गेहूँ	सिंचित		चना	
			00045	छोटाछिंद. नगरीय	गेहूँ	सिंचित		चना	
			00046	कमोद	गेहूँ	सिंचित		चना	
			00047	कुम्हडाखेडा	गेहूँ	सिंचित		चना	
			00048	गोटेगांवखेडा	गेहूँ	सिंचित		चना	
			00049	बरोदा	गेहूँ	सिंचित		चना	
नरसिंहपुर	गोटेगांव	श्रीनगर							

			00050	राजाकछार	गेह	सिंचित		चना
			00051	देवनगर	गेह	सिंचित		चना
			00052	बगासपुर	गेह	सिंचित		चना
			00053	अतरिया	गेह	सिंचित		चना
			00054	चंदलोन	गेह	सिंचित		चना
			00055	सर्ग	गेह	सिंचित		चना
			00056	कुकलाह	गेह	सिंचित		चना
			00057	पोनिया	गेह	सिंचित		चना
			00058	मनकवारा	गेह	सिंचित		चना
			00059	दबकिया	गेह	सिंचित		चना
			00060	पिपरिया	गेह	सिंचित		चना
			00061	कोरेगांव	गेह	सिंचित		चना
			00062	कुंडा	गेह	सिंचित		चना
			00063	झौत	गेह	सिंचित		चना
			00064	लाठगांव	गेह	सिंचित		चना
			00065	गौरतला	गेह	सिंचित		चना
			00066	श्रीनगर	गेह	सिंचित		चना
			00067	भामा	गेह	सिंचित		चना
			00068	नेगुवा	गेह	सिंचित		चना
			00069	उमरिया	गेह	सिंचित		चना
नरसिंहपुर	गोटेगांव	बरहटा						
			00070	कटकही	गेह	सिंचित		चना
			00071	नगवारा	गेह	सिंचित		चना
			00072	नांदिया	गेह	सिंचित		चना
			00073	पिपरसरा	गेह	सिंचित		चना
			00074	चांदनखेडा	गेह	सिंचित		चना
			00075	पिपरिया	गेह	सिंचित		चना
			00076	गुदरई	गेह	सिंचित		चना
			00077	सूरवारी	गेह	सिंचित		चना
			00078	मगरधा	गेह	सिंचित		चना
			00079	बेलखेडी	गेह	सिंचित		चना
			00080	रीछा	गेह	सिंचित		चना
			00081	बेदू	गेह	सिंचित		चना
			00082	बाबली	गेह	सिंचित		चना
			00083	बरहटा	गेह	सिंचित		चना
			00084	दौन	गेह	सिंचित		चना
			00085	सिरकोना	गेह	सिंचित		चना
			00086	सिवनी (बंघा)	गेह	सिंचित		चना
			00087	सिलवानी	गेह	सिंचित		चना
			00088	गाडरवाराखेडा	गेह	सिंचित		चना
			00089	खापा	गेह	सिंचित		चना
			00090	रोहिया	गेह	सिंचित		चना

नरसिंहपुर	गाडरवारा	साईखेड़ा	00091	बुढेना	गेहूँ सिंचित	चना
			00001	सिरसिरी	गेहूँ सिंचित	चना
			00002	मुआर	गेहूँ सिंचित	चना
			00003	मेहरागाँव	गेहूँ सिंचित	चना
			00004	निवावर	गेहूँ सिंचित	चना
			00005	झिकोली	गेहूँ सिंचित	चना
			00006	तूमड़ा	गेहूँ सिंचित	चना
			00007	खिरैटी	गेहूँ सिंचित	
			00008	पिटरास	गेहूँ सिंचित	चना
			00009	साईखेड़ा	गेहूँ सिंचित	चना
			00010	बम्हौरी खुरद	गेहूँ सिंचित	चना
			00011	पीपरपानी	गेहूँ सिंचित	चना
			00012	रमपुरा	गेहूँ सिंचित	चना
			00013	टेकापार	गेहूँ सिंचित	चना
			00014	टुड़यापानी	गेहूँ सिंचित	चना
			00015	सोकलपुर	गेहूँ सिंचित	चना
			00016	पिपरिया कला	गेहूँ सिंचित	चना
			00017	उड़नी	गेहूँ सिंचित	चना
			00018	देतपोन	गेहूँ सिंचित	चना
			00019	अजंदा	गेहूँ सिंचित	चना
नरसिंहपुर	गाडरवारा	देवरी				
			00020	ढिगसरा	गेहूँ सिंचित	चना
			00021	डुंगरिया	गेहूँ सिंचित	चना
			00022	धनौरा	गेहूँ सिंचित	चना
			00023	बनवारी	गेहूँ सिंचित	चना
			00024	पिठवानी	गेहूँ सिंचित	चना
			00025	दहलवाड़ा	गेहूँ सिंचित	चना
			00026	देवरी	गेहूँ सिंचित	चना
			00027	खैरी	गेहूँ सिंचित	चना
			00028	पिपरिया खुरद	गेहूँ सिंचित	चना
			00029	बांसखेड़ा	गेहूँ सिंचित	चना
			00030	मडगुला	गेहूँ सिंचित	चना
			00031	बम्हौरी कला	गेहूँ सिंचित	चना
			00032	सुपारी	गेहूँ सिंचित	चना
			00033	खुरसीपार	गेहूँ सिंचित	चना
			00034	नांदनेर	गेहूँ सिंचित	चना
			00035	बनखेड़ी	गेहूँ सिंचित	चना
			00036	बेरखेड़ी	गेहूँ सिंचित	चना
			00037	खमुरिया	गेहूँ सिंचित	चना
			00038	आडेगाँव	गेहूँ सिंचित	चना



नरसिंहपुर	गाडरवारा	बाबईकला						
			00039	पनागर	गेहूँ	सिंचित		
			00040	सहावन	गेहूँ	सिंचित		
			00041	मोहपा	गेहूँ	सिंचित		
			00042	पचामा	गेहूँ	सिंचित		
			00043	अमाड़ा	गेहूँ	सिंचित		
			00044	वावईकला	गेहूँ	सिंचित		
			00045	वावईखुर्द	गेहूँ	सिंचित		
			00046	अजुनगाँव	गेहूँ	सिंचित		
			00047	मारेगाँव	गेहूँ	सिंचित		
			00048	छैनाकछार	गेहूँ	सिंचित		
			00049	वसुरिया	गेहूँ	सिंचित		
			00050	वारछी	गेहूँ	सिंचित		
			00051	पलेरा	गेहूँ	सिंचित		
			00052	वैरागढ़	गेहूँ	सिंचित		चना
			00053	गुवारी	गेहूँ	सिंचित		चना
			00054	देवरी	गेहूँ	सिंचित		चना
			00055	मालहनवाड़ा	गेहूँ	सिंचित		चना
			00056	पुवारिया	गेहूँ	सिंचित		चना
			00057	ढाना	गेहूँ	सिंचित		चना
			00058	वारहावड़ा	गेहूँ	सिंचित		चना
			00059	दुरसुरू	गेहूँ	सिंचित		
			00060	पिपरिया	गेहूँ	सिंचित		चना
			00061	इमलिया	गेहूँ	सिंचित		
			00062	उकासघाट	गेहूँ	सिंचित		
			00063	सीरेगाँव	गेहूँ	सिंचित		चना
			00064	कठोतिया	गेहूँ	सिंचित		चना
नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली						
			00065	महगाँव कला	गेहूँ	सिंचित		
			00066	कान्हगाँव	गेहूँ	सिंचित		
			00067	मगरमुहाँ	गेहूँ	सिंचित		चना
			00068	खैरी	गेहूँ	सिंचित		चना
			00069	गाँगई	गेहूँ	सिंचित		चना
			00070	छैनाकछार	गेहूँ	सिंचित		चना
			00071	हीरापुर	गेहूँ	सिंचित		चना
			00072	रातीकरार	गेहूँ	सिंचित		चना
			00073	तेदूखेड़ा	गेहूँ	सिंचित		
			00074	मउ	गेहूँ	सिंचित		
			00075	सुखाखैरी	गेहूँ	सिंचित		चना
			00076	चीचली	गेहूँ	सिंचित		चना
			00077	थलवाड़ा	गेहूँ	सिंचित		

			00078	चारगाँव कला	गेहूँ सिंचित		
			00079	बगलई	गेहूँ सिंचित		
			00080	आड़गाव	गेहूँ सिंचित		
			00081	सिंगपुर छोटा	गेहूँ सिंचित		
			00082	चारगाँव खुर्द	गेहूँ सिंचित		चना
			00083	मोहपानी	गेहूँ सिंचित		चना
			00084	पटकुही	गेहूँ सिंचित		चना
			00085	भिलमाढाना	गेहूँ सिंचित		चना
			00086	खला	गेहूँ सिंचित		चना
			00087	चाँदनखेड़ा	गेहूँ सिंचित		चना
			00088	रायपुर	गेहूँ सिंचित		चना
			00089	कुझरी	गेहूँ सिंचित		चना
			00090	चोरबरहटा	गेहूँ सिंचित		
नरसिंहपुर	गाडरवारा	गाडरवारा					
			00091	कजरोटा	गेहूँ सिंचित		चना
			00092	वरहटा	गेहूँ सिंचित		चना
			00093	इमलिया	गेहूँ सिंचित		
			00094	जमाड़ा	गेहूँ सिंचित		
			00095	वरेली	गेहूँ सिंचित		चना
			00096	झाड़नखेड़ा	गेहूँ सिंचित		
			00097	आमगाँव	गेहूँ सिंचित		
			00098	कामती	गेहूँ सिंचित		चना
			00099	गाडरवारा (नगरीय)	गेहूँ सिंचित		
			00100	चिरहकला	गेहूँ सिंचित		चना
			00101	चामचौन	गेहूँ सिंचित		
			00102	नोदरी	गेहूँ सिंचित		
			00103	गरधा	गेहूँ सिंचित		चना
			00104	वगदरा	गेहूँ सिंचित		चना
			00105	निवारी	गेहूँ सिंचित		चना
			00106	खिरिया	गेहूँ सिंचित		
			00107	धोखेड़ा	गेहूँ सिंचित		चना
			00108	पलोहा वड़ा	गेहूँ सिंचित		चना
			00109	रिछावर	गेहूँ सिंचित		चना
			00111	भटेरा	गेहूँ सिंचित		चना
			00112	खकरिया	गेहूँ सिंचित		चना
			00113	नरवारा	गेहूँ सिंचित		चना
			00114	विचुआ	गेहूँ सिंचित		चना
नरसिंहपुर	गाडरवारा	बोहानी					
			00115	कोठिया	गेहूँ सिंचित		चना
			00116	भूमियाढाना	गेहूँ सिंचित		चना
			00117	घघरौलाकला	गेहूँ सिंचित		चना

			00118	भौरझिर	गेहूँ	सिंचित		चना
			00119	करहेया	गेहूँ	सिंचित		चना
			00120	सडूमर	गेहूँ	सिंचित		चना
			00121	लिलवानी	गेहूँ	सिंचित		चना
			00122	सूकरी	गेहूँ	सिंचित		चना
			00123	अट्टायसा	गेहूँ	सिंचित		चना
			00124	कौड़िया	गेहूँ	सिंचित		चना
			00125	चिरिया	गेहूँ	सिंचित		चना
			00126	महगुवा	गेहूँ	सिंचित		चना
			00127	नयागाँव	गेहूँ	सिंचित		चना
			00128	तिगुवा	गेहूँ	सिंचित		चना
			00129	ढाडिया	गेहूँ	सिंचित		चना
			00130	चिरचिरा	गेहूँ	सिंचित		चना
			00131	वोहानी	गेहूँ	सिंचित		चना
			00132	मनकवारा	गेहूँ	सिंचित		चना
			00133	वम्हारी	गेहूँ	सिंचित		चना
नरसिंहपुर	गाडरवारा	सिहोरा						
			00134	सिहोरा	गेहूँ	सिंचित		चना
			00135	अजंनसरा	गेहूँ	सिंचित		चना
			00136	गरहा	गेहूँ	सिंचित		चना
			00137	इमझिरी	गेहूँ	सिंचित		चना
			00138	खुलरी	गेहूँ	सिंचित		चना
			00139	सगौरिया	गेहूँ	सिंचित		चना
			00140	अंडिया	गेहूँ	सिंचित		चना
			00141	डुगरिया				चना
			00144	लिगा	गेहूँ	सिंचित		चना
			00145	छीतापार	गेहूँ	सिंचित		चना
			00146	वीतली	गेहूँ	सिंचित		चना
			00147	खुरसुरु	गेहूँ	सिंचित		चना
			00148	गौरास	गेहूँ	सिंचित		चना
			00149	मडेसुर	गेहूँ	सिंचित		चना
			00150	रमखिरिया	गेहूँ	सिंचित		चना
			00151	बांसखेड़ा	गेहूँ	सिंचित		चना
			00152	महगुवा	गेहूँ	सिंचित		चना
			00153	हरई	गेहूँ	सिंचित		चना
			00154	ठुटी	गेहूँ	सिंचित		चना
			00155	पुरगवा	गेहूँ	सिंचित		चना
नरसिंहपुर	गाडरवारा	करपगाँव						
			00156	टेकापार	गेहूँ	सिंचित		चना
			00157	नरसरा	गेहूँ	सिंचित		चना
			00158	कल्यानपुर				चना

			00159	पनारी	गेहूँ सिंचित		चना
			00160	मालहनवाड़ा	गेहूँ सिंचित		चना
			00161	खंचारी	गेहूँ सिंचित		चना
			00162	करपगाँव	गेहूँ सिंचित		चना
			00163	वटेशरा	गेहूँ सिंचित		चना
			00165	चीकसा			चना
			00166	इमलिया	गेहूँ सिंचित		चना
			00167	शाहपुर	गेहूँ सिंचित		चना
			00168	टिकटोली	गेहूँ सिंचित		चना
			00169	इमलिया	गेहूँ सिंचित		चना
			00170	धमेटा	गेहूँ सिंचित		चना
			00171	भैरोपुर	गेहूँ सिंचित		चना
			00172	सिलहटी	गेहूँ सिंचित		चना
			00173	खड़ई	गेहूँ सिंचित		चना
			00174	खैरी	गेहूँ सिंचित		चना
नरसिंहपुर	तेन्दूखेडा	डोभी					
			00001	महुआखेडा	गेहूँ सिंचित		चना
			00002	दिलवार	गेहूँ सिंचित		चना
			00003	सागौनी	गेहूँ सिंचित		चना
			00004	रम्पुरा	गेहूँ सिंचित		चना
			00005	पीपरवानी	गेहूँ सिंचित		चना
			00006	विलगुवाँ	गेहूँ सिंचित		चना
			00007	खमरिया	गेहूँ सिंचित		चना
			00008	इमझिरा	गेहूँ सिंचित		चना
			00009	तेन्दूखेडा	गेहूँ सिंचित		चना
			00010	उमरपानी	गेहूँ सिंचित		चना
			00011	मदनपुर	गेहूँ सिंचित		चना
			00012	बैधी	गेहूँ सिंचित		चना
			00013	भौरा	गेहूँ सिंचित		चना
			00014	टेकापार	गेहूँ सिंचित		चना
			00015	काचरकोना	गेहूँ सिंचित		चना
			00016	ईश्वरपुर	गेहूँ सिंचित		चना
			00017	गंगई	गेहूँ सिंचित		चना
			00018	गवारी	गेहूँ सिंचित		चना
			00019	मनकापुर	गेहूँ सिंचित		चना
			00020	आमा	गेहूँ सिंचित		चना
			00021	बीकोर	गेहूँ सिंचित		चना
			00022	हीरापुर	गेहूँ सिंचित		चना

नरसिंहपुर	तेन्दूखेडा	चावरपाठा					
			00023	विल्थारी			चना
			00024	सिमरिया कला			चना
			00025	करहैया			चना
			00026	इमलिया			चना
			00027	छतरपुर	गेहूँ सिंचित		चना
			00028	डोभी	गेहूँ सिंचित		चना
			00029	बरकुन्डा	गेहूँ सिंचित		चना
			00030	इमलिया	गेहूँ सिंचित		चना
			00031	बँधा			चना
			00032	पड़रिया			चना
			00033	नादिया			चना
			00034	गुटोरी			चना
			00035	बिजौरा			चना
			00036	गुदरई	गेहूँ सिंचित		चना
			00037	विल्हरा	गेहूँ सिंचित		चना
			00039	लोलरी	गेहूँ सिंचित		चना
			00040	दिगसरा			चना
			00041	काशीखेरी			चना
			00042	मेंहगुवाँ			चना
			00043	नैनवारा	गेहूँ सिंचित		चना
			00044	चौवपाठा			चना

जिला	तहसील	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	100 हैक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची					
					गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	राई-सरसों		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर-2	00016	पिड़रई	गेहूं सिंचित					
			00018	पिपरिया मीडेकल	गेहूं सिंचित		चना			
			00021	घुन्सोर	गेहूं सिंचित		चना			
			00022	नान्हाखेड़ा	गेहूं सिंचित					
			00023	परासिया	गेहूं सिंचित		चना			
			00025	बढैयाखेड़ा	गेहूं सिंचित					
			00026	मगेली	गेहूं सिंचित		चना			
			जबलपुर	बरगी	00027	तिखारी	गेहूं सिंचित		चना	
					00031	निगरी	गेहूं सिंचित			
					00032	जोगीधाना	गेहूं सिंचित			
					00033	हरई	गेहूं सिंचित		चना	
					00034	मुहांस	गेहूं सिंचित			
					00035	घाटापिपरिया	गेहूं सिंचित			
					00036	टीगन	गेहूं सिंचित			
					00037	रेगझोरी	गेहूं सिंचित			
					00038	तिन्सा	गेहूं सिंचित			
					00039	तिन्सी	गेहूं सिंचित		चना	
	00040	पिपरिया			गेहूं सिंचित		चना			
	00041	सालीवाडा			गेहूं सिंचित		चना			
	00042	सुकरी			गेहूं सिंचित		चना			
	00043	मगेला			गेहूं सिंचित					
	00044	हुल्की			गेहूं सिंचित		चना			
	00045	खापा			गेहूं सिंचित		चना			
	00046	कालादेही	गेहूं सिंचित							
	00048	सिलुवा			चना					
	00049	तुनिया	गेहूं सिंचित							
	00051	चौरई								
	00052	मनखेडी			चना					
	00055	बरगी			चना					
	00057	सगडा झपनी			चना					
	00058	चारघाट	गेहूं सिंचित		चना					
	00059	बरबटी	गेहूं सिंचित							
	00060	सोहड	गेहूं सिंचित							
00062	खापाग्वारी	गेहूं सिंचित								

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	जबलपुर	खम्हरिया (बरेला)	00070	खम्हरिया	गेहूं सिंचित			
			00085	पडवार		गेहूं असिंचित		
			00086	बिलगढ़	गेहूं सिंचित			
			00089	रिछाई		गेहूं असिंचित		
			00095	कुडारी	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित		
	कुंडम	इमली	00001	डबराकला		गेहूं असिंचित	चना	
			00002	बघराजी	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित		
			00003	देवरी	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00004	पिपरिया		गेहूं असिंचित	चना	
			00005	धनवाही	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00006	गुरैया	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00007	फिफरी	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00008	भजिया	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00009	इमलई	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित		
			00010	जुझारी	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00011	तिलसानी	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित		
			00012	देहरीखुर्द	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00013	नवरगवा			चना	
			00015	अमझर	गेहूं सिंचित			
			00017	पडरिया		गेहूं असिंचित		
			00019	कल्याणपुर		गेहूं असिंचित	चना	
			00020	खुक्खम		गेहूं असिंचित	चना	
			00021	देवरीकला		गेहूं असिंचित		
			00022	डोली		गेहूं असिंचित		
			00023	बडखेरा		गेहूं असिंचित		
			00024	जमगांव		गेहूं असिंचित		
			00025	कस्तरा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित		
			00026	रमपुरीकला	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00027	दरगढ़		गेहूं असिंचित	चना	
			00028	दुरका	गेहूं सिंचित		चना	
			00029	सरसवा		गेहूं असिंचित	चना	
			00030	कुरगवां		गेहूं असिंचित	चना	
			00031	जेतपुरी		गेहूं असिंचित	चना	
			00032	खिन्हा		गेहूं असिंचित	चना	
			00033	बैरागी		गेहूं असिंचित	चना	
			00034	लहसर	गेहूं सिंचित		चना	
			00035	टिकरिया	गेहूं सिंचित		चना	
			00036	घुघरा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00037	बदुवा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	कुंडम	कुंडम	00040	हाडीपानी		गेहूं असिंचित	चना	
			00041	सलैया		गेहूं असिंचित		
			00042	साताबेली		गेहूं असिंचित	चना	
			00043	लखनवारा		गेहूं असिंचित		
			00044	सरौली		गेहूं असिंचित	चना	
			00045	संजारी		गेहूं असिंचित	चना	
			00046	महगवां		गेहूं असिंचित	चना	
			00047	सूपावारा		गेहूं असिंचित	चना	
			00048	कुवरहट		गेहूं असिंचित		
			00049	गौरी		गेहूं असिंचित	चना	
			00050	आमाटिटहा		गेहूं असिंचित		
			00051	कोसमडोगरी	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00052	झिरमिला		गेहूं असिंचित	चना	
			00053	ददरगवां		गेहूं असिंचित	चना	
			00054	मखरार	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00055	मडइकला	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित		
			00056	खेरी		गेहूं असिंचित		
			00057	मोहनी		गेहूं असिंचित	चना	
			00058	सहदरी		गेहूं असिंचित		
			00059	चौरईकला		गेहूं असिंचित		
			00060	भैसवाही		गेहूं असिंचित		
			00061	बिलटुकरी		गेहूं असिंचित		
			00062	कुडंहरदुली		गेहूं असिंचित		
			00063	झिरिया		गेहूं असिंचित		
			00064	हरदुलीकला		गेहूं असिंचित		
			00066	देवहरा		गेहूं असिंचित		
			00067	महेशपुरी		गेहूं असिंचित		
	पाटन	पाटन	00039	आरछा			चना	
			00040	बिनैकी	गेहूं सिंचित		चना	
			00041	लुहारी			चना	
			00042	बैनीखेडा			चना	
			00043	उजरोड			चना	
			00044	नीची			चना	
			00045	सिमरिया			चना	
			00046	नुन्सर			चना	
			00047	बरोदा			चना	
			00048	छेडी			चना	
			00049	जरौन्द			चना	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	पाटन	पाटन	00056	पाटन (न. पं.)				चना
			00057	बूढीकोनी				चना
			00058	कोनीकला	गेहूं सिंचित			
			00059	महुआखेडा	गेहूं सिंचित			
			00062	हरदुवा	गेहूं सिंचित			चना
			00064	रिमझा				चना
			00065	गुरू पिपरिया				चना
			00066	सिमरिया				चना
			00067	धनेटा				चना
			00068	सहसन				चना
			00069	बरही				चना
			00070	ग्वारी				चना
			00071	पडरिया				चना
			00072	भुवारा				चना
			00073	उड़ना				चना
			00074	हरदुआ				चना
			00075	पौडी				चना
			00076	कांटी				चना
			00078	मालाकला				चना
			00079	कटरा बैलखेड़ा				चना
			00080	पौडीकला				चना
	पाटन	कटंगी	00001	कटंगी	गेहूं सिंचित			
			00002	कूडा	गेहूं सिंचित			
			00003	डुगरिया	गेहूं सिंचित			
			00004	घटेरा	गेहूं सिंचित			
			00007	भिडकी	गेहूं सिंचित			
			00008	ककरहटा	गेहूं सिंचित			
			00010	गनयारी	गेहूं सिंचित			
			00011	मुरई	गेहूं सिंचित			
			00012	कुसली	गेहूं सिंचित			
			00017	बगसवाही	गेहूं सिंचित			
			00018	तमोरिया	गेहूं सिंचित			
			00019	कैमोरी	गेहूं सिंचित			
			00021	सकरा				चना
			00025	महगंवा				चना
			00026	सरौद				चना
			00027	विधौरा				चना
			00029	जमुनियां				चना
			00033	काकरखेड़ा	गेहूं सिंचित			चना
			00034	कैथरा				चना
	सिंहोरा	खितौला	00015	जुझारी	गेहूं सिंचित			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	सिहोरा	मझगवां	00032	रजगवां	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित		
			00033	बुधारी			चना	
			00037	खितौला खम्परिया	गेहूं सिंचित			
			00039	भण्डरा	गेहूं सिंचित			
			00040	खिरहनीकला	गेहूं सिंचित			
			00041	उनगवां	गेहूं सिंचित			
			00042	कुम्ही सतधपारा	गेहूं सिंचित			
			00043	देवरी	गेहूं सिंचित			
			00044	बुदुरा	गेहूं सिंचित		चना	
			00046	मझगवां		गेहूं असिंचित		
			00059	कचनारी		गेहूं असिंचित	चना	
			00061	मढा	गेहूं सिंचित		चना	
	मझौली	मझौली	00015	दिवरी	गेहूं सिंचित			
			00016	मझगवां	गेहूं सिंचित			
			00017	पटौरी	गेहूं सिंचित			
			00018	दौनी	गेहूं सिंचित			
			00019	काकरदेही	गेहूं सिंचित			
			00020	रानीताल	गेहूं सिंचित		चना	
			00021	मझौली	गेहूं सिंचित			
			00022	हतौली	गेहूं सिंचित		चना	
			00023	खबरा	गेहूं सिंचित		चना	
			00033	वनखेडी	गेहूं सिंचित			
			00034	कोनीकला	गेहूं सिंचित			
			00035	लुहारी (अनघौरा)	गेहूं सिंचित			
			00036	गौरा (नेगई)	गेहूं सिंचित			
			00037	कापा	गेहूं सिंचित			
			00038	इन्द्रानी	गेहूं सिंचित		चना	
			00039	टिकरी	गेहूं सिंचित			
			00040	चनगवां	गेहूं सिंचित			
			00041	बीछी	गेहूं सिंचित		चना	
	मझौली	पोडा	00043	कूडा	गेहूं सिंचित			
			00045	कैलवास	गेहूं सिंचित		चना	
			00046	दिवरी	गेहूं सिंचित			
			00047	खिन्नी	गेहूं सिंचित		चना	
			00051	हथलेवा	गेहूं सिंचित		चना	
			00052	लखनपुर	गेहूं सिंचित			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			00056	हरसिंधी	गेहूं	असिंचित		
			00060	रिवझा	गेहूं	सिंचित		
			00061	पौडीकला	गेहूं	सिंचित		चना
			00062	पाडा	गेहूं	सिंचित		
			00066	दशनी	गेहूं	सिंचित		
			00069	तलाड़	गेहूं	सिंचित		
			00076	मोहला	गेहूं	सिंचित		
	शहपुरा	पिपरियाकला	00011	कुटरी	गेहूं	सिंचित		चना
			00016	बेलखेड़ी	गेहूं	सिंचित		चना
			00024	कुसली	गेहूं	सिंचित		
			00025	चरगवां (नवीन)	गेहूं	सिंचित		
			00026	कुसमी	गेहूं	सिंचित		
			00027	इमलिया	गेहूं	सिंचित		
	शहपुरा	शहपुरा	00032	संगडा (महगवां)	गेहूं	असिंचित		
			00033	पिपरिया (कनवास)	गेहूं	असिंचित		
			00034	नटवारा	गेहूं	असिंचित		
			00035	रमखिरिया	गेहूं	सिंचित	गेहूं	असिंचित
			00036	बिलपठार			गेहूं	असिंचित
			00037	शहपुरा				चना
			00038	नौनी				चना
			00039	घुन्सौर	गेहूं	सिंचित	गेहूं	असिंचित
			00040	जमुनियां				चना
			00041	कैथरा				चना
			00042	गढ़ा पिपरिया				चना
			00043	लामी				चना
			00044	सिहोदा				चना
			00045	कूडन			गेहूं	असिंचित
			00046	बिल्हा			गेहूं	असिंचित
			00047	बिलखरवा			गेहूं	असिंचित
			00048	हीरापुर बंधा				चना
			00049	सहजपुर				चना
			00050	बडखेरा				चना
			00051	किसरोद				चना
			00052	मुगरमुहा			गेहूं	असिंचित
			00053	भमकी				चना
			00054	छपरट			गेहूं	असिंचित

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			00055	मालकछार	गेहूं असिंचित			
शहपुरा	चरगवां		00056	अहमदपुर	गेहूं सिंचित		चना	
			00072	बगरई	गेहूं सिंचित		चना	
			00074	बडखेरी गगईद	गेहूं सिंचित		चना	
			00085	चिरापौड़ी	गेहूं सिंचित		चना	
पनागर	पनागर		00001	सिगलदीप	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00002	गुलेदी	गेहूं सिंचित		चना	
			00003	लखना	गेहूं सिंचित		चना	
			00004	कालाडूमर	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00005	खिरहनी	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00006	इमलिया	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00007	निरदपुर	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00008	उर्दुवाकला		गेहूं असिंचित	चना	
			00009	बम्हनौदी	गेहूं सिंचित		चना	
			00010	भिण्डारीकला			चना	
			00011	मूनकवारा			चना	
			00012	सिंगोद			चना	
			00013	लोटी	गेहूं सिंचित		चना	
			00014	खमरिया	गेहूं सिंचित		चना	
			00015	नुनियाकला			चना	
			00016	उमरियाचौबे			चना	
			00017	बम्हनौदा			चना	
			00018	मुढिया			चना	
			00019	पनागर		गेहूं असिंचित	चना	
			00020	मोहनिया		गेहूं असिंचित		
			00021	तिवारीखेडा.	गेहूं सिंचित			
			00023	कुसनेर		गेहूं असिंचित		
			00024	पिपरिया		गेहूं असिंचित		
			00025	बडखेरी		गेहूं असिंचित		
			00026	बडखेरा		गेहूं असिंचित		
			00027	पठरा		गेहूं असिंचित		
			00029	महगवां		गेहूं असिंचित		
			00030	इमलई		गेहूं असिंचित		
			00031	निभौरा		गेहूं असिंचित		
			00032	छतरपुर	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित		
			00033	पडरी	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00034	मोहारी		गेहूं असिंचित		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			00035	धरहर	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00036	सुन्दरपुर		गेहूं असिंचित	चना	
			00037	तिलगवां	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित		
	पनागर	महराजपुर	00038	वीरनेर	गेहूं सिंचित			
			00040	गधेरी	गेहूं सिंचित			
			00046	मझगवां	गेहूं सिंचित			
			00049	निपानिया	गेहूं सिंचित			
			00050	भरदा	गेहूं सिंचित			
			00051	तिदनी	गेहूं सिंचित			
			00061	खैरी	गेहूं सिंचित			
			00063	उर्दुवाखुर्द	गेहूं सिंचित			
			00067	बघौड़ा	गेहूं सिंचित		चना	
			00068	खिरिया	गेहूं सिंचित		चना	
			00069	झगरा			चना	
			00072	मंगेला			चना	
			00074	खिरियाकलां	गेहूं सिंचित			
			00075	सूरतलाई	गेहूं सिंचित			
			00076	सूखा	गेहूं सिंचित			
			00080	अमखेरा	गेहूं सिंचित		चना	
देवास	उदयनगर	उदयनगर	00038	सोबल्यापुरा	गेहूं सिंचित		चना	
	(बागली)		00039	पूजापुरा	गेहूं सिंचित		चना	
			00040	पलासी	गेहूं सिंचित		चना	
			00041	रूपलीपुरा	गेहूं सिंचित		चना	
			00042	बोरखाल्या	गेहूं सिंचित		चना	
			00043	पोस्तीपुरा	गेहूं सिंचित		चना	
			00044	बोरपढाव	गेहूं सिंचित		चना	
			00045	पारसपीपली	गेहूं सिंचित		चना	
			00046	चन्दपुरा	गेहूं सिंचित		चना	
			00047	करडी	गेहूं सिंचित		चना	
			00048	मानसिपुरा	गेहूं सिंचित		चना	
			00049	भीकुपुरा	गेहूं सिंचित		चना	
			00050	रातातलाई	गेहूं सिंचित		चना	
			00051	नीमखेडा	गेहूं सिंचित		चना	
			00052	पानकुआ	गेहूं सिंचित		चना	
			00053	आगराखुर्द	गेहूं सिंचित		चना	
			00054	सिबनीपानी	गेहूं सिंचित		चना	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			00055	मगरादेह	गेहूं सिंचित		चना	
			00056	पटाडीपाला	गेहूं सिंचित		चना	
			00057	देवनलिया	गेहूं सिंचित		चना	
			00058	महीगांव	गेहूं सिंचित		चना	
			00059	कनाड	गेहूं सिंचित		चना	
			00060	सीतापुरी	गेहूं सिंचित		चना	
			00061	आनंदनगर	गेहूं सिंचित		चना	
			00062	बिसाली	गेहूं सिंचित		चना	
			00063	पाण्डूतालाब	गेहूं सिंचित		चना	
			00064	श्यामपुरा	गेहूं सिंचित		चना	
			00065	पिपल्यालोहार	गेहूं सिंचित		चना	
			00066	मिर्जापुर	गेहूं सिंचित		चना	
			00067	इमलीपुरा	गेहूं सिंचित		चना	
			00068	हीरापुर	गेहूं सिंचित		चना	
			00069	उदयनगर	गेहूं सिंचित		चना	
			00070	रामपुरापटपडी	गेहूं सिंचित		चना	
			00071	किशनगढ़	गेहूं सिंचित		चना	
			00072	पिपलपाटी	गेहूं सिंचित		चना	
			00073	पोलाखाल	गेहूं सिंचित		चना	
			00074	निमनपुर	गेहूं सिंचित		चना	
			00075	पीपरी	गेहूं सिंचित		चना	
			00076	पोटला	गेहूं सिंचित		चना	
			00077	धारडी	गेहूं सिंचित		चना	
			00078	देवझिरी	गेहूं सिंचित		चना	
			00079	गुराडदा	गेहूं सिंचित		चना	
			00080	रतनपुर	गेहूं सिंचित		चना	
			00081	बावडीखेड़ा	गेहूं सिंचित		चना	